



एसजेवीएन लिमिटेड
(भारत सरकार एवं हि.प्र.सरकार का संयुक्त उपक्रम)
आईएसओ 9001:2000 कंपनी
मिनी रत्नी एवं शेड्यूल 'ए' पीएसयू

विज्ञापन संख्या 109/2022

अंतिम तिथि: 08/01/2023

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना

एसजेवीएन लिमिटेड, एक मिनी रत्न शेड्यूल 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पात्र अभ्यर्थियों, जो उत्तराखंड के निवासी हों, से प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत निम्नवत विधाओं में एक वर्ष के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

स्नातक प्रशिक्षुता			
क्र.सं.	विधा/ट्रेड	सीटों की संख्या	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता
1	सिविल	6	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से संबंधित विधा में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री।
2	विद्युत	4	
3	मैकेनिकल	4	
4	मानव संसाधन	3	मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से 02 वर्ष पूर्णकालिक एमबीए के साथ स्नातक।
5	वित्त एवं लेखा	3	वित्त में विशेषज्ञता के साथ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से 02 वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए के साथ स्नातक।
	योग	20	
तकनीशियन प्रशिक्षुता (माडिप्लो)			
क्र.सं.	विधा/ट्रेड	सीटों की संख्या	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता
1	सिविल	12	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डता एआईसीटीई द्वारा मान्य / विद्यालय से संबंधित विधा में विश्व/न संस्थाप्राप्त /इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में पूर्णकालिक पॉलीटेक्निकल डिप्लोमा।
2	विद्युत	3	
3	मैकेनिकल	3	
4	सूचना प्रौद्योगिकी	2	
	योग	20	
तकनीशियन (आईटीआई) प्रशिक्षुता			
क्र.सं.	विधा/ट्रेड	सीटों की संख्या	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता
1	इलेक्ट्रिशियन	6	किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयन से संस्था / र्ण।आईटीआई उत्ती
2	ऑफिस सेक्रेटरीशिप/स्टेनोग्राफी/कार्यालय सहायक/ कार्यालय प्रबंधन	3	
3	फेब्रिकेटर/फिटर/वेल्डर	4	
4	मैकेनिक(इलेक्ट्रॉनिक्स/सामान्य/मैकेनिकल)	3	

5	इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/आईटी/कंप्यूटर असेंबली एवं रखरखाव	4	
	योग	20	

नोट: यदि किसी ट्रेड/विधा में पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण सीटें नहीं भरी गई/खाली रहती हैं तो उन्हें अन्य ट्रेड/विधा के लिए परिवर्तित किया जाएगा।

- आयु सीमा:** आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष हैं (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 05 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) के लिए 03 वर्ष तथा पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष की छूट है)।
- वृत्तिका:**
 - स्नातक प्रशिक्षु: ₹ 10,000/- प्रतिमाह
 - डिप्लोमा होल्डर: ₹ 8,000/- प्रतिमाह
 - आईटीआई प्रशिक्षु: ₹ 7,000/- प्रतिमाह
- प्रशिक्षण अवधि:** एक वर्ष
- आरक्षण:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा पीडब्ल्यूडी के लिए सीटों का आरक्षण प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा इसमें तत्पश्चात् संशोधनों के अनुसार होगा।
- परियोजना प्रभावित परिवार/परियोजना प्रभावित क्षेत्र को प्राथमिकता:** एसजेवीएन के परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) तथा परियोजना प्रभावित क्षेत्रों (पीएए) के अभ्यर्थियों के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्यों को प्रथम प्राथमिकता के साथ कुल सीटों का 25% निर्धारित किया गया है। हालांकि, अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी/राजस्व विभाग/पंचायत द्वारा इस संबंध में जारी तथा संबंधित एसजेवीएन कार्यालयों से विधिवत सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- केवल वे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के निवासी हैं, आवेदन के लिए पात्र हैं।**
- अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पात्र होना चाहिए। परिणाम प्रतीक्षित अभ्यर्थी आवेदन न करें। एसजेवीएन में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन न करें।
- एसजेवीएन में रोजगार:** एसजेवीएन द्वारा एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् प्रशिक्षण में कोई विस्तार या रोजगार प्रदान नहीं किया जाएगा।
- अभ्यर्थियों को ठहरने का स्वयं प्रबंध करना होगा।
- जिन अभ्यर्थियों ने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात् एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रशिक्षण अथवा रोजगार अनुभव प्राप्त किया है, उन्हें प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यहां तक कि यदि परिणाम की घोषणा तथा प्रशिक्षण आरंभ करने के मध्य तीन वर्षों से अधिक का अंतर है तो अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा।**
- चयन का मानदंड:** कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। पात्र अभ्यर्थियों का चयन मैट्रिक परीक्षा(दसवीं) तथा आईटीआई पाठ्यक्रम/ डिप्लोमा एवं इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में स्नातक या एमबीए में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बनाई गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा:

प्रशिक्षुता	वेटेज़			कुल अंक
स्नातक प्रशिक्षु	दसवीं कक्षा से 20%	12वीं/डिप्लोमा से 20% (दोनों के मामले में जो भी उच्च हो)	इंजीनियरिंग/ एमबीए में कुल योग का 60%	100

डिप्लोमा तकनीशियन	दसवीं कक्षा से 30%	इंजीनियरिंग में डिप्लोमा से 70%	100
आईटीआई तकनीशियन	दसवीं कक्षा से 30%	आईटीआई से 70%	100

चयनित अभ्यर्थियों की सूची एसजेवीएन की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ उन्हें डाक के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

12. आवेदन पत्र में दी गई सूचना के आधार पर चुने गए अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय सभी मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में दी गई सूचना/दावे को गलत पाए जाने के मामले में ऐसे आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी होगा/होगी।
अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग से पहले चिकित्सा फिटनेस प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए चयन एवं तैनाती प्रशिक्षुता अधिनियम के विस्तृत प्रावधानों के अध्यधीन होगी। चयनित अभ्यर्थियों के साथ अनुबंध बोर्ड ऑफ एपरेटिसशिप ट्रेनिंग(बीओएटी)/नेशनल एपरेटिसशिप प्रोमोशन स्कीम(एनएपीएस)पोर्टल के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसलिए जो अभ्यर्थी पहले से ही पंजीकृत किए गए हैं तथा इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्राप्त है उन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे आवेदन न करें।

आवेदन कैसे करें:

पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in में कैरियर सेक्शन के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम/तरीके से आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वेबसाइट पर आवेदनों के पंजीकरण से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित पर ध्यान दें:-

- क) वैध ई मेल-आईडी तथा मोबाईल नं., जो कम से कम एक वर्ष तक वैध रहना चाहिए।
- ख) व्यक्तिगत विवरण तथा शैक्षणिक योग्यता विवरण तथा डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग विवरण जिसके माध्यम से ऑनलाईन भर्ती पोर्टल पर 100/- रुपए (अनु.जा./अनु.ज.जा./पी.डब्ल्यू.डी को छूट) के आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना है। एक बार फीस का भुगतान करने पर किसी भी परिस्थिति में इसे वापिस नहीं किया जाएगा।
- ग) अभ्यर्थी के पास नवीनतम पासपोर्ट साईज के स्कैन किए गए फोटोग्राफ के साथ साथ डिजिटल फार्मेट-(केवल .jpg या .jpeg फाईल में 500 केबी साईज से कम) में हस्ताक्षर का फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के लिए।
- घ) अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से यह नोट करें कि अपूर्ण आवेदन-पत्र, आवेदन जमा न होने अथवा किसी भी कारण से उनकी प्राप्ति में हुए किसी विलम्ब के कारण आवेदन रद्द होने पर एसजेवीएन जिम्मेदार नहीं होगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन जमा करने के लिए ऑन लाईन पंजीकरण का आरंभ: **19.12.2022**

वेबसाइट के माध्यम से आवेदनों को जमा करने की अंतिम तिथि: **08.01.2023**

नोट:

- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में व्यवस्तता से बचने के लिए पर्याप्त समय पूर्व आवेदन करें। एसजेवीएन ऑन लाईन आवेदन को जमा करने में नेटवर्क समस्या अथवा किसी अन्य समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- मैनुअल/पेपर आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।